

सुदूर जनजातीय गाँवों में इंटरनेट (VSAT)

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने **झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र** के लगभग 80 आदिवासी गाँवों के लिये पायलट आधार पर **V-SAT (वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल)** स्टेशन तैनात करने के लिये **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन** के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है।

- इस पहल का उद्देश्य भौगोलिक रूप से दूरदराज़ के आदिवासी गाँवों को इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करना है, जो चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण ऐतिहासिक रूप से मुश्किल रहे हैं। यह **ई-गवर्नेंस** की सुविधा प्रदान करेगा और दूरदराज़ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा।
- इसके अलावा मंत्रालय ने **एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कलकत्ता और आईआईएससी बंगलुरु** जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी के प्रस्तावों पर भी चर्चा की।
 - **एम्स दिल्ली** के साथ साझेदारी में जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों, विशेष रूप से **सकिल सेल एनीमिया** पर उन्नत शोध करना शामिल है।
 - इसके अतिरिक्त, जनजातीय छात्रों को **अर्धचालक** पर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये बंगलुरु में **भारतीय विज्ञान संस्थान** के साथ एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की भी योजना है।

और पढ़ें: **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/internet-in-remote-tribal-villages-vsats>

